

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 की अवधि में भारत का मक्का निर्यात 58 प्रतिशत की गिरावट के साथ चार साल के निचले स्तर पर आ गया। देश का मक्का निर्यात 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष के 34.53 लाख टन से घटकर 14.42 लाख टन रह गया।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो वार्षिक वर्षा में 70 प्रतिशत योगदान देता है, अपने सामान्य समय से दो दिन पहले 30 मई को भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचा। मानसून सामान्य तिथि से छह दिन पहले पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों के साथ-साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ा।
- रबी बाजार सीजन 2024-25 के लिए गेहूँ की खरीद पिछले साल के स्तर को पार कर गई है, जो पंजाब और हरियाणा से महत्वपूर्ण योगदान के साथ 26.3 मिलियन टन तक पहुंच गई है।
- एक सरकारी अधिकारी के अनुसार भारत ने जनवरी से अप्रैल के दौरान रिकॉर्ड 4,172 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 455 टन आयात किया था।
- आरबीआई ने ब्रिटेन के वॉल्ट से 100 टन सोना वापस ला दिया है।
- अप्रैल 2024 में वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन 5 प्रतिशत घटकर 155.7 मिलियन टन रह गया, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 164 मिलियन टन था। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्डस्टील) के अनुसार, शीर्ष उत्पादक चीन का उत्पादन अप्रैल में घटकर 85.9 मिलियन टन रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि से 7.2 प्रतिशत कम है। भारत ने इस्पात उत्पादन में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 12.1 मिलियन टन रहा।
- एसएमएम का अनुमान है कि मई 2024 में चीन में रिफाइनड जिंक का उत्पादन पिछले महीने से 26,800 मीट्रिक टन बढ़कर 531,400 मीट्रिक टन हो जाएगा, जो साल-दर-साल 5.86% की कमी है, और जनवरी से मई तक कुल उत्पादन 2.631 मिलियन मीट्रिक टन होगा।
- एक वैश्विक उत्पादक ने जुलाई-सितंबर के लिए जापानी खरीदारों को 175 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का प्रीमियम दिया, जो तिमाही-दर-तिमाही 18% से 21% की वृद्धि है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	24.05.24	30.05.24	बदलाव (%)
कैस्टर ऑयल	1153.50	1163.50	0.87%
मक्का	2213.00	2230.00	0.77%
जौ	2144.50	2159.00	0.68%
कैस्टर सीड	5691.00	5715.00	0.42%
कॉटनऑयलसीडकेक	2749.00	2759.00	0.36%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	24.05.24	30.05.24	बदलाव (%)
हल्दी	19972.00	17872.00	-10.51%
जीरा	29390.00	28475.00	-3.11%
धनिया	7614.00	7456.00	-2.08%
ग्वारगम	10791.00	10693.00	-0.91%
कपास	1620.00	1609.00	-0.68%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	24.05.24	30.05.24	बदलाव (%)
चांदी	90548.00	94123.00	3.95%
एल्युमीनियम	240.80	247.75	2.89%
लेड	188.90	191.65	1.46%
सोना पेटल	7046.00	7134.00	1.25%
कॉटन	56560.00	57240.00	1.20%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	24.05.24	30.05.24	बदलाव (%)
मेंथा ऑयल	925.90	887.70	-4.13%
जिंक	274.20	270.75	-1.26%
तांबा	883.05	874.00	-1.02%
जिंक मिनी	273.00	271.85	-0.42%

## साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स में उछाल के बीच सीआरबी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन डॉलर इंडेक्स अंततः लाल निशान में बंद हुआ। सर्राफा बाजार में, सोना एक दायरे के भीतर कारोबार करता रहा और इसमें मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि चांदी में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोना 72,000 के करीब बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमतें मुनाफावसूली के कारण 94,150 के आसपास बंद होने से पहले 96,484 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। सोने के वायदा सट्टेबाजों ने 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तरों पर ओपन इंटेरेस्ट के सापेक्ष शुद्ध लॉन पोजिशन बनाए रखी है, यह प्रवृत्ति मार्च के मध्य में शुरू हुई और स्थिर बनी हुई है। बेस मेटल में, एल्युमीनियम की कीमतें बढ़त के साथ बंद हुई, और चीन से सकारात्मक सेंटीमेंट के कारण लेड वायदा भी उच्च स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन, इस क्षेत्र की दोनों मजबूत कमोडिटीज, तांबा और जिंक की कीमतें, उच्च स्तरों से मुनाफावसूली के कारण थोड़ी कम बढ़त के साथ बंद हुई। पिछले सप्ताह पर्याप्त मुनाफावसूली के बाद 873 के करीब बंद होने से पहले तांबा 945.9 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। बाजार की स्थिरता के बीच कॉमेक्स और लंदन मेटल एक्सचेंज के बीच मूल्य अंतर एलएई में कीमतों के लिए सहायक रहा है। मुख्य रूप से कोबरे पनामा खदान में शटडाउन और विभिन्न उत्पादकों से उत्पादन मार्गदर्शन में कमी के कारण 2023 की चौथी तिमाही से बाजार में कमी हुई है। मैक्रोइकॉनॉमिक समाचारों में, पहली तिमाही में अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में 1.3% की वृद्धि हुई, जो 1.6% के शुरुआती अनुमान से काफी कम है और पिछली तिमाही में दर्ज 3.4% वृद्धि से काफी कम है। ऊर्जा क्षेत्र में, कच्चे तेल ने शुरुआत में अधिक कारोबार किया, लेकिन बाद में अपने सभी साप्ताहिक बढ़त को गवां दिया। अमेरिकी सरकार द्वारा कमजोर ईंधन मांग और गैसोलीन और डिस्टिलेट ईंधन भंडार में आश्चर्यजनक वृद्धि की सूचना देने के बाद गुरुवार को तेल की कीमतों में फिर से गिरावट हुई। दोनों बेंचमार्क मासिक नुकसान की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रेंट वायदा में पिछले महीने की तुलना में 6% से अधिक की गिरावट हुई है, जबकि डब्ल्यूटीआई की कीमतों में 4.5% से अधिक की गिरावट हुई है। नेचुरल गैस वायदा की कीमतें सप्ताह के अंत में बढ़त के साथ बंद हुई, लेकिन सप्ताह के अंत में बढ़त कुछ कम हो गई।

कृषि क्षेत्र में, ग्वार काउंटर मिले-जुले फंडामेंटल के कारण सीमित दायरे में रहा, लेकिन ग्वारसीड की कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई। मसालों में, आवक में कमी के कारण धनिया में मामूली तेजी रही। कीमतों में गिरावट के साथ आवक में कमी आई और कीमतों को समर्थन मिला। हल्दी की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई और जीरा भी कमजोर रहा लेकिन गिरावट कम हुई। निर्यात संबंधी पूछताछ धूमिल है और निर्यात मौसमी के अनुसार धीमी रहने की संभावना है जो कीमतों में ओम बढ़त को सीमित करेगी। हाजिर कीमतों में गिरावट के साथ हाजिर और वायदा के बीच कीमतों का अंतर 1460 अंक के करीब रहा। जीरे का अधिकांश स्टॉक अभी भी स्टॉकियों के पास है और वे बेहतर प्राप्ति के बाद ही अपना स्टॉक जारी करेंगे। मौसमी मांग के कारण कपास की कीमतों में वृद्धि हुई। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2023-24 में 309.7 लाख गांठ उत्पादन में से लगभग 292 लाख गांठ आने के कारण आवक कम रहने की संभावना है। बेहतर आपूर्ति के बावजूद मेंथा तेल मजबूत रहा, क्योंकि मध्य क्षेत्र में नई आवक बढ़ने की संभावना है। भारत ने फरवरी 2024 के दौरान लगभग 309 टन मेंथा तेल का निर्यात किया, जबकि सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 210 टन का निर्यात किया गया था।





## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	24.05.2024	30.05.2024	बदलाव (%)
जौ	जयपुर	2133.25	2150.00	0.79%
चना	दिल्ली	7075.55	7185.35	1.55%
धनिया	कोटा	7611.95	7596.75	-0.20%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	879.65	878.30	-0.15%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1068.40	1068.40	0.00%
ग्वारसीड	जोधपुर	5534.60	5520.00	-0.26%
ग्वारगम	जोधपुर	9000.00	9000.00	0.00%
जीरा	ऊझा	30327.80	28752.90	-5.19%
सरसों	जयपुर	6146.20	6187.85	0.68%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	952.50	955.00	0.26%
सोयाबीन	इंदौर	4872.90	4787.50	-1.75%
हल्दी	निजामाबाद	17988.65	18203.75	1.20%
गेहूं	दिल्ली	2555.00	2600.25	1.77%
कॉटन	कड़ी	27010.70	27321.45	1.15%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2806.90	2841.40	1.23%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	24.05.2024	30.05.2024	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2662.00	2703.50	1.56%
तांबा	LME	नकद	10324.00	10135.00	-1.83%
लेड	LME	नकद	2298.00	2277.00	-0.91%
निकल	LME	नकद	20250.00	20063.00	-0.92%
जिंक	LME	नकद	3057.00	3071.50	0.47%
सोना	COMEX	जून	2332.50	2342.90	0.45%
चांदी	COMEX	जुलाई	30.35	31.53	3.91%
लाइट क्रूड	NYMEX	जून	77.72	77.91	0.24%
नेचुरल गैस	NYMEX	जून	2.52	2.57	2.06%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	24.05.2024	30.05.2024	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	1,248.00	1,209.75	-3.06%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	44.95	45.72	1.71%
कॉटन	ICE	जुलाई	80.52	77.76	-3.43%
सीपीओ	BMD	अगस्त	3,885.00	3,993.00	2.78%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	23.05.2024 क्वांटिटी	30.05.2024 क्वांटिटी	अंतर
कॉटन	मी.टन	0	0	0
बाजरा	मी.टन	381	381	0
जौ	मी.टन	381	381	0
कैस्टर सीड	मी.टन	24084	25617	1533
धनिया	मी.टन	9323	9931	608
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	53812	50831	-2981
ग्वारगम	मी.टन	17845	17925	80
ग्वारसीड	मी.टन	18625	17536	-1089
जीरा	मी.टन	198	180	-18
स्टील	मी.टन	10	10	0

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	24.05.2024 क्वांटिटी	30.05.2024 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	138.383	310.271	172
तांबा	मी.टन	1417541	1157746	-259795
सोना	किग्रा	329	329	0
सोना मिनी	किग्रा	1776	1776	0
सोना गिनी	किग्रा	40000	26500	-13500
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	309483.061	318971.451	9488
चांदी एम	किग्रा	50272.755	50272.755	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 24.05.2024	स्टॉक की स्थिति 30.05.2024	अंतर
एल्युमीनियम	1121500	1120050	-1450.00
तांबा	114750	118125	3375.00
निकल	83730	83634	-96.00
लेड	195225	188275	-6950.00
जिंक	257200	251775	-5425.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	काट्रेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जून	28475.00	30.05.24	मंदी	28900.00	-	30470.00	30550.00
NCDEX	हल्दी	जून	17872.00	28.05.24	मंदी	19800.00	-	18880.00	19000.00
NCDEX	धनिया	जून	7456.00	27.05.24	मंदी	7600.00	-	7830.00	7900.00
NCDEX	ग्वारसीड	जून	5487.00	14.02.24	तेजी	5300.00	5350.00	-	5300.00
NCDEX	ग्वारगम	जून	10693.00	28.03.24	तेजी	10000.00	10250.00	-	10200.00
NCDEX	कैस्टरसीड	जून	5715.00	18.01.24	तेजी	5650.00	5520.00	-	5500.00
NCDEX	सुरजमुखी तेल	जून	902.50	06.03.24	तेजी	845.00	875.00	-	870.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जून	2759.00	16.05.24	तेजी	2630.00	2530.00	-	2500.00
NCDEX	कपास	अप्रैल-25	1609.00	16.05.24	तेजी	1565.00	1535.00	-	1530.00
MCX	मेंथा ऑयल	जून	919.90	27.09.23	मंदी	960.00	-	975.00	980.00
MCX	बुलडेक्स	जून	18891.00	04.03.24	तेजी	16600.00	18250.00	-	18200.00
MCX	चांदी	जुलाई	94123.00	04.03.24	तेजी	72200.00	84200.00	-	84000.00
MCX	सोना	अगस्त	72216.00	04.03.24	तेजी	64000.00	70600.00	-	70500.00
MCX	तांबा	जून	877.20	06.03.24	साइडवेज	730.00	860.00	910.00	-
MCX	लेड	जून	191.55	06.03.24	तेजी	179.00	182.00	-	180.00
MCX	जिंक	जून	271.50	06.03.24	तेजी	218.00	245.00	-	244.00
MCX	एल्युमिनियम	जून	243.50	04.03.24	तेजी	202.00	231.00	-	230.00
MCX	कच्चा तेल	जून	6488.00	21.05.24	मंदी	6550.00	-	6730.00	6750.00
MCX	नेचुरल गैस	जून	217.00	26.04.24	तेजी	165.00	195.00	-	190.00

\*30/05/2024 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### तांबा ( जून ) एमसीएक्स



### तांबा ( जून ) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 953.45

निचला स्तर: 772.00

एमसीएक्स में तांबा (जून) कॉन्ट्रैक्ट 30 मई 2024 को 874.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 885.34 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 50.73 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

900.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 860.00 ₹ के टारगेट के लिए 885.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### कच्चा तेल ( जून ) एमसीएक्स



### कच्चा तेल ( जून ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 7279.00

निचला स्तर: 6345.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (जून) कॉन्ट्रैक्ट 30 मई 2024 को 6488.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6580.63 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 43.69 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6800.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6250.00 ₹ के टारगेट के लिए 660.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### हल्दी ( जून ) एनसीडीईएक्स



### हल्दी ( जून ) एनसीडीईएक्स

उच्चस्तर: 20174.00

निचला स्तर: 12922.00

एमसीएक्स में हल्दी (जून) कॉन्ट्रैक्ट 30 मई 2024 को 17872.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 18597.11 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 43.60 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

18500.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 17000.00 ₹ के टारगेट के लिए 18000.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

हल्दी की कीमतों में गिरावट जारी रही क्योंकि कारोबारियों ने घरेलू खरीद में सुस्ती के कारण मुनाफावसूली के द्वारा एक्सचेंजों में अपने पोजिशन को कम कर दिया। अधिकांश स्टॉकिस्ट और मिलों ने कीमतों में अधिक गिरावट की आशंका में थोक खरीद से परहेज किया क्योंकि कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर थीं। हाजिर और वायदा कीमतों के बीच भारी अंतर ने भी वायदा प्लेटफॉर्म पर मुनाफावसूली को बढ़ावा दिया। हल्दी में गिरावट सीमित होने की संभावना है क्योंकि पिछले साल की तुलना में कुल आवक की गति धीमी रही है और प्रत्येक बीते सप्ताह के साथ कम रहने की संभावना है। मई 2024 में भारत भर की प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 33 हजार टन हल्दी की आवक हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 61.7 हजार टन की आवक हुई थी। आवक कम होने का कारण उत्पादन में साल-दर-साल 16% की गिरावट का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.7 लाख टन रह सकता है। निर्यात पर नयी सरकारी आधिकारिक विज्ञापित बाजार के लिए प्रमुख खबर होगी क्योंकि वर्ष 2024 में अब तक निर्यात कम रहा है। भारत से हल्दी का निर्यात मार्च 24 में 7% कम होकर 17.43 हजार टन रह गया, जबकि अप्रैल 23-मार्च 24 के दौरान कुल निर्यात 162.0 हजार टन दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष से 4.7% कम है। हल्दी की कीमतों के 16600-19000 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

मुख्य रूप से मुनाफावसूली के कारण जीरा वायदा की कीमतों में हाल के उच्च स्तर से गिरावट हुई है। हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मई 24 में आपूर्ति में वृद्धि हुई क्योंकि किसान और स्टॉकिस्ट बेहतर मूल्य प्राप्त के कारण अपने स्टॉक को खाली कर रहे थे। मई 24 के दौरान प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 51 हजार टन जीरा की आवक हुई है जबकि अप्रैल 24 में 45.7 हजार टन और पिछले साल इसी महीने 22 हजार टन जीरा की आवक हुई थी। जीरे का कुल उत्पादन साल दर साल 30% अधिक रहने की संभावना है, जो वर्ष 2024-25 में 8.15 लाख टन के करीब हो सकता है। लेकिन, जीरे की निर्यात मांग अधिक रही है, जो कीमतों में बड़ी गिरावट को रोक देगी। मार्च 2024 में भारत से जीरे का निर्यात साल दर साल 73% बढ़कर 32.12 हजार टन रहा। स्टॉकिस्ट साल 2024 के आने वाले महीनों में कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में अधिकांश स्टॉक को रोके हुए हैं। जीरे की कीमतों के 24000-33000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर भारी कैरीफॉरवर्ड स्टॉक के समर्थन से मुनाफावसूली के कारण धनिया की कीमत में गिरावट हुई। धीमी आवक के कारण धनिया में नुकसान न्यूनतम रहने की संभावना है। आपूर्ति में गिरावट हुई है क्योंकि मई 2024 में भारत भर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर केवल 38 हजार टन धनिया की आवक हुई, जबकि अप्रैल 2024 में 45 हजार टन और पिछले वर्ष इसी महीने 97 हजार टन धनिया की आवक हुई थी। निर्यात अधिक रहा है जिससे कीमतों में मजबूती को भी समर्थन मिलेगा। चीन और बांग्लादेश से मांग बढ़ी है जिससे निर्यातकों ने कीमतों में हाल ही गिरावट के कारण धनिया खरीदने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल 2023-मार्च 2024 के दौरान धनिया का कुल निर्यात 94.9 हजार टन दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल 115% अधिक है। धनिया का कुल उत्पादन साल दर साल 26% कम रहने की संभावना है, जिससे धनिया में प्रमुख रुझान तेजी का रहेगा। धनिया की कीमतों के 6900-7800 के दायरे में रहने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

स्पिनिंग मिलों की बढ़ती मांग के बीच बाजार में धीमी आवक को देखते हुए कॉटन की कीमतें हाल के निचले स्तरों से लगभग 2000 अंक बढ़ गई हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2023-24 में 309.7 लाख गांठ उत्पादन में से लगभग 292 लाख गांठ की आवक होने के कारण आवक कम रहने की संभावना है। कीमतें अमेरिका में चल रही रोपण प्रगति से संकेतों का अनुसरण कर सकती हैं। अमेरिका ने 28 मई तक कपास के अनुमानित रोपण क्षेत्र का लगभग 59% रोपण किया था, जबकि पिछले वर्ष यह 56% और पिछले पांच साल में औसत 57% था। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों के 55800- 59000 के बीच कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-25) वायदा की कीमतों के 1565-1620 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मॉनसून की अच्छी प्रगति के कारण कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतों में नरमी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। मॉनसून की शुरुआती शुरुआत बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकती है। कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतें 2640-2800 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

ग्वारसीड वायदा में गिरावट का रुख रहा। आवक में वृद्धि और घरेलू मांग में कमी ने बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। मई 2024 के दौरान भारत भर की प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 21 हजार टन ग्वारसीड की आवक हुई, जबकि पिछले वर्ष 17 हजार टन और अप्रैल 2024 में 13 हजार टन ग्वारसीड की आवक हुई थी। आगामी बुवाई गतिविधियों पर मुख्य ध्यान केंद्रित होने की संभावना है, जो मॉनसून की वर्षा के साथ आने वाले हफ्तों में गति पकड़ने की संभावना है। मौसम की स्थिति बुवाई गतिविधियों के अनुकूल होने की संभावना है, जिससे ग्वारसीड के तहत क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। निर्यात में वृद्धि की उम्मीद कीमतों में अत्यधिक गिरावट को रोक देगी। मार्च 2024 में ग्वार डेरिवेटिव उत्पादों का निर्यात साल-दर-साल 40% बढ़कर 40.7 हजार टन हो गया। ग्वारसीड की कीमतों को 5040 के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि रेजिस्टेंस 5700 पर देखा जा रहा है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 9800 के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना है, जबकि रेजिस्टेंस 11300 पर देखा जा रहा है।

आने वाले हफ्तों में मई आवक बढ़ने से आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं के कारण मंथा तेल की कीमतों में गिरावट की संभावना है। मंथा तेल की कीमतों के 910-940 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर सीमित उपलब्धता के मुकाबले बढ़ती मांग के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। कैस्टरसीड की कीमतों के 5550-5900 के स्तर पर कारोबार करने की संभावना है।

### सर्पा

सोने की कीमतों में लगातार चौथे महीने बढ़त दर्ज की गई है, जबकि बाजार में अमेरिकी मुद्रास्फीति के प्रमुख आंकड़ों से पहले गति के लिए संघर्ष करना पड़ा, जो इस साल के अंत में फंडरल रिजर्व की दरों में संभावित कटौती के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है। मासिक बढ़त का श्रेय केंद्रीय बैंकों की खरीद और भू-राजनीतिक जोखिमों को है। नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि संशोधित कम हेडलाइन और पीसीई मूल्य सूचकांकों के साथ, पहले के अनुमानों से कम, पहली तिमाही में अमेरिकी जीडीपी में 1.3% की वृद्धि हुई। कमजोर अमेरिकी जीडीपी संभावित नीति ढील का संकेत दे सकती है, लेकिन बहुत कुछ मुद्रास्फीति की प्रगति पर निर्भर करता है। इसके अलावा, हाल के सप्ताह में शुरुआती बेरोजगारी के दावे बढ़े, लेकिन इस साल के औसत से ऊपर रहे, जो श्रम बाजार में नरमी का संकेत देते हैं, जबकि कॉर्पोरेट मुनाफे में अप्रत्याशित रूप से गिरावट हुई है। अब ध्यान पीसीई मुद्रास्फीति पर है, जो फंड का पसंदीदा मुद्रास्फीति उपाय है, जो केंद्रीय बैंक के नीति दृष्टिकोण पर अधिक प्रकाश डालता है। इस बीच, व्यापारियों ने दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है क्योंकि फेड अधिकारियों ने हाल ही में आक्रामक रुख अपनाया है, जो 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एक लंबे रास्ते का संकेत देता है। जबकि बुलियन को मुद्रास्फीति से बचाव माना जाता है, और उच्च दरें गैर-योल्ड वाली संपत्ति को रखने की अवसर लागत को बढ़ाती हैं। कॉमेक्स पर, सोने की कीमतें 2,320 और 2,400 डॉलर के बीच अटकी हुई हैं। इनमें से किसी भी तरफ जाने पर सोने के अगले कदम को परिभाषित करेगी। दूसरी ओर, चांदी में गिरावट देखने को मिल सकता है, और कीमतों को संभवतः 30.40 डॉलर के आसपास सपोर्ट और 33.00 डॉलर के करीब रेजिस्टेंस मिल सकता है। आने वाले सप्ताह में, एमसीएक्स पर सोने की कीमतों को 70,500 के आसपास सपोर्ट और 73,000 के करीब रेजिस्टेंस मिल सकता है। चांदी की कीमतें 90,000 से 96,000 के बीच कारोबार कर सकती है। जिसकी दिशा पर मिश्रित विचार हैं।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

इस सप्ताह कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, आर्थिक चिंताओं के कारण कीमतों में गिरावट के कारण रिटर्न में गिरावट आई। ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने के डर ने वित्तीय बाजारों में जोखिम-रहित सेंटीमेंट को जन्म दिया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एएसएंडपी-500 में दो सप्ताह के निचले स्तर पर गिरावट ने आर्थिक दृष्टिकोण में विश्वास को कम किया, जिससे ऊर्जा को लेकर मांग और कच्चे तेल की कीमतों में मंदी आई। कमजोर डॉलर और ईआईए के कच्चे तेल के साप्ताहिक भंडार में उम्मीद से अधिक गिरावट आने के बावजूद गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई। ईआईए ने कहा कि गैसोलिन का भंडार सप्ताह के लिए 2 मिलियन बैरल बढ़कर 228.8 मिलियन बैरल हो गया, जबकि 400,000 बैरल की उम्मीद थी। कमजोर अमेरिकी आर्थिक समाचारों ने ऊर्जा मांग और कच्चे तेल की कीमतों पर अधिक दबाव डाला। साप्ताहिक शुरुआती बेरोजगारी दावों में 3,000 की वृद्धि हुई और यह 219,000 हो गया, जो उम्मीद से थोड़ा कमजोर श्रम बाजार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल में लंबित घरेलू विक्री में महीने-दर-महीने 7.7% की गिरावट हुई, जो तीन वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है, जबकि अपेक्षित 1.0% की गिरावट थी। पहली तिमाही की जीडीपी को 1.6% से घटाकर 1.3% कर दिया गया, जो आर्थिक कमजोरी का संकेत देता है। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है, जो खबरों से काफी प्रभावित है। कीमतें 6,250 से 6,680 के दायरे में कारोबार कर सकती है। साप्ताहिक इन्वेंट्री के अपेक्षा से अधिक बढ़ने के बाद नेचुरल गैस की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। मिश्रित मौसम के अनुमान ने भी नेचुरल गैस की कीमतों पर दबाव डाला, क्योंकि नैटगैसवेदर ने 6-13 जून से पूर्वी अमेरिका में मध्यम तापमान का अनुमान लगाया है, जिससे एयर कंडीशनिंग के लिए नेचुरल गैस की मांग कम हो गई है। इस सप्ताह में, नेचुरल गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, जिसमें 200 के आसपास सपोर्ट और 240 के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं क्योंकि चीन के निराशाजनक मैनुफैक्चरिंग आंकड़ों के कारण धातुओं की मांग कम हो रही है, खासकर शीर्ष उपभोक्ता चीन में, जहां हाल ही में कीमतों में उछाल के कारण खपत में पहले से ही गिरावट आई है। आधिकारिक फैक्ट्री सर्वेक्षण के अनुसार, चीन के आधिकारिक क्रय प्रबंधकों का सूचकांक अप्रैल में 50.4 से मई में 49.5 पर आ गया, जो विकास को गिरावट से अलग करने वाले 50 अंक से नीचे है और रॉयटर्स पोल में 50.4 के औसत पूर्वानुमान से भी कम है। लेकिन आवास बाजार को स्थिर करने पर चीन की नई नीति पर जोर, ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के कारण धातुओं की मांग को बढ़ावा मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अब उम्मीद है कि चीन की अर्थव्यवस्था इस साल 5% बढ़ेगी, जिसने 2024 की शुरुआत में मजबूत विस्तार और सरकार से अतिरिक्त समर्थन को दर्शाने के लिए इस साल की शुरुआत में अपने पूर्वानुमान को 4.6% से बढ़ा दिया है। तांबे की कीमतें 865-895 के दायरे में कारोबार कर सकती है। कमजोर हाजिर मांग, मजबूत आयात और बढ़ते धरेलू उत्पादन के कारण चीन के एक्सचेंज में भंडार अधिक हो गया है। जिंक की कीमतें 260-280 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एसएमएम का अनुमान है कि मई 2024 में चीन में रिफाइंड जिंक का उत्पादन पिछले महीने से 26,800 मीट्रिक टन बढ़कर 531,400 मीट्रिक टन हो जाएगा, जो साल-दर-साल 5.86% की कमी है, और जनवरी से मई तक कुल उत्पादन 2.631 मिलियन मीट्रिक टन होगा, क्योंकि रखरखाव के बाद उत्पादन फिर से शुरू हो गया है और कई प्रांतों में स्मेल्टरो में उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेड की कीमतें 186-195 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 236-252 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। सौर और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों द्वारा धातु की मांग मजबूत रही है। एक वैश्विक उत्पादक ने जुलाई-सितंबर के लिए जापानी खरीदारों को 175 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का प्रीमियम दिया, जो तिमाही-दर-तिमाही 18% से 21% की वृद्धि है, जो एल्युमीनियम की बढ़ती मांग को दर्शाता है।


## एल्युमीनियम..... ऊर्जा परिवर्तन की गति बढ़ने के साथ वृद्धि की उम्मीद

ऑटोमोटिव, निर्माण, एयरोस्पेस उद्योगों और धरेलू उपकरणों एवं बर्तनों में व्यापक रूप से उपयोग के कारण एल्युमीनियम स्टील के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धातु है। इसलिए निवेशक एल्युमीनियम को पसंद करते हैं और दुनिया भर के एक्सचेंजों पर इसका सबसे अधिक कारोबार होता है।

एल्युमीनियम की कीमतें हाल ही में 2 वर्षों से अधिक समय के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई क्योंकि हाल ही में प्रमुख सामग्री एल्यूमिना की आपूर्ति में बाधाओं और इस वर्ष शीर्ष उपभोक्ता चीन की मजबूत मांग, मुख्य रूप से सौर और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों से, और यूके और यूएस द्वारा रूसी धातुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से कीमतों को समर्थन मिला। एयरोस्पेस उद्योग और डिब्बाबंद सामान में इस्तेमाल होने वाली धातु के लिए एलएमई की कीमतें लगभग 17% बढ़ी हैं, जबकि एसएचएफई और एमसीएक्स में इस वर्ष अब तक की कीमतों में क्रमशः 11% और 20% की वृद्धि हुई है। चीन के युन्नान प्रांत में अनिश्चित मौसम संबंधी स्थितियों ने एल्युमिनियम उत्पादकों के लिए पनबिजली की उपलब्धता को खतरे में डाल दिया, जिससे आपूर्ति की चिंता और बढ़ गई। एलएमई-निगरानी वाले गोदामों में धातु के घटते भंडार ने भी समर्थन प्रदान किया। रियो टिटो द्वारा क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अपनी रिफाइनरियों से एल्युमिना निर्यात के लिए तीसरे पक्ष के अनुबंधों पर यथास्थिति की घोषणा के बाद एल्युमिनियम की आपूर्ति को लेकर भी चिंता पैदा हो गई।

### कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

- अंतर्राष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 में दुनिया में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन 5.9 मिलियन टन हुआ था, जबकि मार्च 2024 में यह 6.09 मिलियन टन और अप्रैल 2023 में 5.71 मिलियन टन था।
- अप्रैल 2024 के दौरान उत्पादन में साल-दर-साल वृद्धि मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग और सौर ऊर्जा जैसे मैनुफैक्चरिंग क्षेत्रों में मांग में सुधार, उत्पादन लागत में कमी और लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्युमीनियम बेंचमार्क मूल्य में तेजी के कारण उच्च लाभ मार्जिन के कारण हुई।
- जनवरी-अप्रैल 2024 में, मांग में सुधार और उत्पादन लागत में कमी के कारण विश्व स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन में साल-दर-साल 4% की वृद्धि होगी
- राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल में चीन का प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन एक साल पहले की तुलना में 7.2% बढ़कर 3.58 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।
- आंकड़ों के अनुसार, वर्ष के पहले चार महीनों में चीन ने 14.24 मिलियन मीट्रिक टन एल्युमीनियम का उत्पादन किया, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 7.1% अधिक है।
- सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में चीन में कच्चे एल्युमीनियम और उत्पादों का आयात पिछले वर्ष की तुलना में 72.1% बढ़कर 380,000 मीट्रिक टन हो गया। इससे पहले चार महीनों में आयात 1.49 मिलियन टन हो गया, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि से 86.6% अधिक है। इस वर्ष आयात में वृद्धि का श्रेय रूस से अधिक प्रवाह को दिया गया।
- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा रूसी धातुओं पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों के बाद, चीन में अधिक रूसी एल्युमीनियम आने की उम्मीद है।
- सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, एल्युमीनियम के लिए एक प्रमुख कच्चे माल बॉक्साइट का आयात अप्रैल में 18.8% बढ़कर 14.24 मिलियन टन हो गया।
- पहले चार महीनों में बॉक्साइट का आयात 50.5 मिलियन टन रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 6.2% अधिक है।
- तीन सूत्रों ने बताया कि एक वैश्विक एल्युमीनियम उत्पादक ने जापानी खरीदारों को जुलाई-सितंबर की प्राथमिक धातु शिपमेंट के लिए 175 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का प्रीमियम देने की पेशकश की है, जो मौजूदा तिमाही से 18% से 21% अधिक है।
- यह वृद्धि यूरोपीय ग्राहकों की मजबूत मांग के कारण एशिया में आपूर्ति में कमी को दर्शाती है। यूरोप में उच्च प्रीमियम वैश्विक उत्पादकों को इस क्षेत्र में आपूर्ति भेजने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रीमियम भी एशिया की तुलना में बहुत अधिक है।



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान





आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट्री द्वारा सिन्डिकेटेड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।